

INSTRUCTIONS FOR THE NOMINEE

- बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के तुरन्त बाद, नामिनि, मृत्यु की तारीख की पुष्टि के लिए अस्पताल या सरपंच द्वारा जारी किया गया मृत्यु प्रमाणपत्र पर राजपत्रित अफसर के द्वारा हस्ताक्षर किये हो, उसे भेजे।
Immediately on the death of Insurant, the nominee will intimate the date of death duly supported by a certificate issued from hospital or by Sarpanch duly countersigned by a Gazetted Officer.
- अपने स्थाई निवास स्थान के नजदीकी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलें और बैंक का नाम पूरे पते, बैंक कोड नम्बर और खाता संख्या के साथ।
Open a bank account with the nearest nationalised bank and intimate address of the branch and account number and Bank Code Number.
- बढ़ाए गये बीमा प्रमाण-पत्र को ठीक प्रकार से भरकर सेना सामूहिक बीमा निधि, ए जी आई भवन, राव तुला राम मार्ग, पोस्ट बैग नं. 14, ओ-वसंत विहार, नई दिल्ली-110057 को वापिस कर दें।
Surrender the Extended Insurance Certificate, duly completed to Army Group Insurance Fund, AGI Bhawan, Rao Tula Ram Marg, Post Bag No. 14, P.O.-Vasant Vihar, New Delhi-110057.
- नेपाल के अधिवासी गोरखा नामिनि अपने कागजात पूरे करने और मिल्ट्री और एयर अटैची, काठमान्डू, नेपाल के जरिए इन्हें सेना सामूहिक निधि को भेजने के लिए अपने नजदीकी पेंशन देने वाले आफिस/रिकार्ड से सम्पर्क करें। बीमे की रकम सेना सामूहिक बीमा निधि, मिल्ट्री 3 नेपाल के जरिए नामिनि को अदा करेगा।
Nepal domiciled Gorkha nominee should approach nearest pension paying office Gorkha Records Office completing the documents and onward despatch to Army Group Insurance fund through Military and Air Attache, Kathmandu, Nepal. Insurance Amount will be remitted by AGI Fund through MA Nepal for payment to the nominee.
- अगर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गये आवेदन पत्र-संशोधित 'परिशिष्ट जी' में किन्हीं तथ्यों को छुपाया गया तो इस प्रमाण-पत्र अवैध माना जाएगा।
Any suppression of facts in Application-Appendix G (Revised) submitted by applicant will render this certificate invalid.
- यदि किसी भी पार्टी को नोटिस दिया जाता है तो उसको तभी वैध माना जाएगा जब वह नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा उसके अंकित पते पर गया हो।
If any notice is to be served on either Party, the same will be deemed as validity served if it is despatched by registered post to the last known address of the party on record.

RECEIPT

Received a sum of Rs. (Rupees)

(In words)

..... only) from AGI Fund.

नामिनि के हस्ताक्षर
(रसीदी टिकट के ऊपर)

Signature/Thumb Impression of nominee
(Over Revenue stamp)

अंगूठे का निशान राजपत्रित अफसर द्वारा
तसदीक हो आफिस मोहर के साथ

(Thumb impression to be attached by a
Gazetted Officer with his office seal)

तारीख
Date

SURVIVAL BENEFIT- CLAIM

If a member survives the validity period of cover ie 26 years after retirement/discharge or 75 years age which ever is earlier, he can claim survival benefit by sending the following documents to AGIF

- Duly discharged EI certificate in original.
- Bank details with IFS code and CBS A/C No.
- Present correspondance address with Tele/Mob No and Email ID if any.

Date

Signature of surviving Member

FOR USE OF AGI FUND

Insurance/survival benefits paid

Date
of death

Amount

Date of payment Cheques No. and Date

क्रम संख्या NO.EI 72010 237958



एक्सटेन्डेड आर्मी ग्रुप इन्श्योरेन्स सर्टिफिकेट EXTENDED ARMY GROUP INSURANCE CERTIFICATE

To be surrendered on the death of Insurant/Survival after validity period to AGI Fund,
Rao Tula Ram Marg, Post Bag No. 14, Vasant Vihar, New Delhi-110 057



DETAILS OF INSURANT

प्रमाण पत्र संख्या Certificate No. 40899067 जारी करने की तारीख Date of Issue 14/07/2015
नम्बर No. OR 2795816 रैंक Rank NK नाम Name MANE GAJANAN KRUSHNA
रेजि/कोर Regt./Corps Maratha Light Infantry
जन्म तिथि Date of Birth 12/02/1981 सेवा निवृत्ति Date of 31/08/2015
की तारीख Retirement
बीमा अवधि Valid Period of EI cover from 01/09/2015 से To 31/08/2045 तक
मृत्यु पर Sum assured Rs. 500000.00 उतरजीवी लाभ Surviving Benefits 63500.00
बीमाकृत रकम on death 63500.00
वापिस होने वाली प्रीमियम One time refundable premium Paid Rs.
नामिनि का सम्बन्ध और पता
Nominee with Relationship and Address

RESHAMA
Wife
VILL-DESHMUKHWADI
PO-ATPADI
DISTT-SANGLI
MAHARASHTRA

दूसरे नामिनि का नाम, सम्बन्ध और पता
Contingent Nominee(s) with Relationship
VEDANTH GAJANAN MANE

(Son)
(Daughter) TANMAI GAJANAN
MANE

25 Aug 2015

TANMAI GAJANAN MANE
(Daughter)

(Asw. Recor) Maratha LI
Letter no 2795816/AGI/SR/AGI
dt 04/09/15.

Lt Col
Jt Dir Claims (Maturity)
Army Group Insurance Fund

जारीकर्ता अफसर के हस्ताक्षर
Signature of Issuing Officer

Lt Col/Maj
Jt Dir/AGI
Army Group Insurance Fund

To,
Army Group Insurance Fund,
AGI Bhawan, Rao Tula Ram Marg,
Post Bag No. 14, P.O. Vasant Vihar,
New Delhi-110 057

- मैं बहुत दुख से सूचित करता/करती हूँ कि मेरे पति/पत्नि/माता/पिता/
I regret to inform that my husband/wife/mother/father/..... (नम्बर) (As applicable) No. रैंक Rank
- नाम मृत्यु की तारीख मृत्यु का कारण स्थान
Name Expired on (date) due to (cause) at (place)
- मैं मृत्यु प्रमाण पत्र भेज रहा/रही हूँ।
I enclose the death Certificate.
- मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि प्रमाण पत्र के अनुसार मैं ही नामिनि या द्वितीय नामिनि हूँ।
I certify that I am the Nominee/Contingent Nominee (as applicable) as per the Certificate above.

तारीख
Date

नामिनि के हस्ताक्षर
Signature of Nominee

Notes :-
यदि नामिनि क्लेम कर रहा है तो पैरा 3 में कारण लिखें।